



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938

No. 91]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 114(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभाग, गैर-कानूनी विभागीय कैटीन (समूह-ग) पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग, गैर सांविधिक विभागीय कैटीन (समूह-ग) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभाग, गैर-कानूनी विभागीय कैटीन (समूह-ग) पद भर्ती नियम, 2015 (इसके पश्चात जिसे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष वाला स्तंभ रखा जाएगा, अर्थात:- “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” ;

(ख) सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्या (1) में-

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (ii) स्तंभ (11) में, “प्रोन्नति” शीर्ष के अंतर्गत, मद (i) और (ii) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:-

“(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले क्लर्क ;

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21,700-69,100 रु.) में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले हलवाई सह रसोइया जिन्हें स्टोर अथवा लेखा के कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव हो और सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले क्लर्क के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता हो अर्थात किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से वाणिज्य में इण्टरमीडिएट किया हो”;

- (iii) स्तंभ (11) में “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अंतर्गत मद (क) की उप मद (ii) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:- “(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में 8 वर्ष की नियमित सेवा ; और”;

- (ग) हलवाई सह रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) में—

- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21,700-69,100 रु.)” प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;
- (ii) “प्रोन्नति” शीर्ष के अंतर्गत स्तंभ (11) में प्रविष्टि के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक हलवाई सह रसोइया” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) स्तंभ (11) में “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अंतर्गत मद (क) की उप मद (ii) और उसमें संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:-

“(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक हलवाई सह रसोइया; और”;

- (घ) क्लर्क के पद से संबंधित क्रम संख्या (3) में-

- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.)” प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;
- (ii) “प्रोन्नति” शीर्ष के अंतर्गत स्तंभ (11) में प्रविष्टि के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचर” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) स्तंभ (11) में “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अंतर्गत मद (ख) और उसमें संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:-

“(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचर; और स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वालों के लिए निर्धारित अर्हताएँ हों”;

- (ङ.) सहायक हलवाई सह रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्या (4) में—

- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.)” प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;
- (ii) “प्रोन्नति” शीर्ष के अंतर्गत स्तंभ (11) में प्रविष्टि के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचर” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) स्तंभ (11) में “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अंतर्गत मद (ii) और उसमें संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:-

“(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचर जिन्हें हलवाई सह रसोइया के साथ सहायक का 1 वर्ष का अनुभव हो; और

(च) स्तंभ (4) में कैटीन परिचर के पद से संबंधित क्रम संख्या (5) की प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. क-12018/14/2013-प्रशा. III. ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

**टिप्पणी:** प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 31 मार्च, 2015 की सा.का.नि. संख्या 239(अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2017

**G.S.R. 114(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Department, Non-Statutory Departmental Canteens (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules shall be called the Central Excise and Customs Department, Non-Statutory Departmental Canteens (Group 'C') Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise and Customs Department, Non-Statutory Departmental Canteens (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”.

3. In the Schedule to the said rules,—

(a) in column (4), for the column heading, the column heading “Level in pay matrix” shall be substituted;

(b) against serial number 1 relating to the post of Assistant Manager-cum-Store Keeper,—

(i) in column (4), for the entries, the entries “Level – 4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)” shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for items (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:—

“(i) Clerk with eight years regular service in level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200);

(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in level – 3 in the pay matrix (Rs.21,700-69,100) with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for Clerk directly recruited i.e. Intermediate with Commerce from a recognized Board or University.”;

(iii) in column (11), under the heading “Deputation”, for sub-item (ii) of item (a) and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:—

“(ii) with eight years regular service in level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200); and”;

- (c) against serial number 2 relating to the post of Halwai-cum-Cook,—
- (i) in column (4), for the entries, the entries “Level–3 in the pay matrix (Rs.21,700-69,100)” shall be substituted;
  - (ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for the entry, the entry “Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)” shall be substituted;
  - (iii) in column (11), under the heading “Deputation”, for sub-item (ii) of item (a) and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely: —  
“(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200); and”;
- (d) against serial number 3 relating to the post of Clerk,—
- (i) in column (4), for the entries, the entries “Level–2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)” shall be substituted;
  - (ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for the entry, the entry “Canteen Attendant with three years regular service in level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900)” shall be substituted;
  - (iii) in column (11), under the heading “Deputation”, for item (b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-  
“(b) Canteen Attendant with three years regular service in level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900); and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).”;
- (e) against serial number 4 relating to the post of Assistant Halwai-cum-Cook,—
- (i) in column (4), for the entries, the entries “Level–2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)” shall be substituted;
  - (ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for the entry, the entry “Canteen Attendant in level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service in the grade.” shall be substituted;
  - (iii) in column (11), under the heading “Deputation”, for item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: —  
“(ii) Canteen Attendant in level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and”;
- (f) against serial number 5 relating to the post of Canteen Attendant, in column (4), for the entries, the entries “Level–1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/14/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2015.